

राज्यात व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय अंतर्गत परवानगी देण्यात आलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम संस्थामध्ये राष्ट्रीय व्यवसाय शिक्षण आराखडा NSQF प्रमाणे अभ्यासक्रम पुर्नरचित करून सत्र २०१५-१६ पासून सुरु करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
शासन निर्णय क्र.हिंओसी २०१५/प्र.क्र.११२/व्यशि४
मंत्रालय (विस्तार), खोली क्र. ४३५,
महात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२
दिनांक :- ०४/०७/२०१५

- संदर्भ :- १) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. व्यशि/२०१४/प्र.क्र.८२/१४/ एसडी-६, दि.२१.८.२०१४
२) शिक्षण विभागाचे पत्र क्र.अभ्यास २११४/(१७०/१४)/एसडी-४, दि.२०.०२.२०१४
३) PSSCIVE, भोपाळ यांचे पत्र क्र.१-१/PSSCIVE/२०१५, दि.१८.०५.२०१५
४) संचालक(व्यवसाय शिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४/हिंओसी /२२०३/२०१५/४६ दि. २९/०५/२०१५ व ४/हिंओसी /२२०३/२०१५/५५ दि. १६/०६/२०१५

प्रस्तावना :-

राज्यात व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय मार्फत व्यवसाय शिक्षण या लेखाशिर्षाखालील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व अशासकीय कायम विना अनुदानित संस्थामध्ये व्यवसाय अभ्यासक्रम शासन परवानगीने राबविण्यात येतात.

तथापि मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी राष्ट्रीय व्यवसाय शिक्षण आराखडा NSQF तयार केलेला आहे व त्याप्रमाणे अभ्यासक्रम सुसंगत करून सुरु करण्याचे भारत सरकारने निर्देश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरून राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व अशासकीय कायम विना अनुदानित संस्थामध्ये सुरु असलेले जुने अभ्यासक्रम रूपांतरीत करून नविन अभ्यासक्रम राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

राज्यातील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय अंतर्गत परवानगी देण्यात आलेले सर्व शासकीय, अशासकीय अनुदानित व अशासकीय कायम विना अनुदानित संस्थामध्ये सुरु असलेले अभ्यासक्रम राष्ट्रीय धोरणप्रमाणे माध्यमिक स्तरावर पूर्व व्यावसायिक माध्यमिक अभ्यासक्रम इयत्ता ९ वी व १० वी राष्ट्रीय व्यवसाय शिक्षण आराखडा NSQF प्रमाणे संस्थेत सध्या सुरु असलेले अभ्यासक्रम रूपांतरीत नविन पुर्नरचित अभ्यासक्रम करण्याची प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. संस्थानिहाय जुन्या व रूपांतरित अभ्यासक्रमांची यादी सोबतच्या प्रपत्र अ, ब व क नुसार जोडली आहे.

- १) हे अभ्यासक्रम सत्र २०१५ पासून इयत्ता ९ वी करीता सुरु करण्यात येतील. सोबत प्रपत्र १, २, ३ प्रमाणे संस्थानिहाय शासकीय, अशासकीय अनुदानित व अशासकीय कायम विना अनुदानित संस्थांची यादी जोडण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे नविन अभ्यासक्रमाची नावे असतील.
- २) प्रत्येक तुकड्यांचे प्रवेश क्षमता ३० इतकी राहिल.
- ३) जुने अभ्यासक्रमाप्रमाणे ज्या संस्थेत १ तुकडीची प्रवेश क्षमता ६० अशी होती त्या तुकड्यांच्या १ ऐवजी २ तुकड्या सुरु करून प्रवेश क्षमता ३०-३० प्रमाणे राहिल.
- ४) ज्या संस्थेत २ किंवा त्यापेक्षा जास्त तुकड्या सुरु असतील उदा. Electrical Elements & Electrical Technology त्या ऐवजी Electrical Technology व Electronics Technology च्या स्वतंत्र तुकड्या करण्यात आलेल्या आहेत किंवा Elements of Mechanical Engineering विभागून Mechanical Technology व Automobile Service Technician अशा तुकड्या विभागून देण्यात आलेल्या आहेत.
- ५) या निर्णयामुळे कोणतेही अतिरिक्त पद मंजूर होणार नाही. संचालनालय स्तरावर शिक्षक वर्गाचा नविन अभ्यासक्रमाप्रमाणे प्रशिक्षणाचे वर्ग आयोजित करण्यात यावेत.
- ६) जुने व नविन अभ्यासक्रमात संस्थानिहाय अभ्यासक्रमात नावात बदल करताना तफावत झाली असल्यास त्याप्रमाणे बदल करण्याचे अधिकार संचालक(व्यवसाय शिक्षण) यांना देण्यात येत आहेत. तथापि संपूर्ण अभ्यासक्रम बदलून इतर व्यवसाय द्यावयाचे असलेतर त्यास शासनाची मान्यता घ्यावी लागेल.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०१५०७०४१२३१३०३५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(रा.गो. जाधव)
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) संचालक (व्यवसाय शिक्षण) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई९
- २) अध्यक्ष /सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे .
- ३) शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- ४) मा. मंत्री (उ व तं.शि) यांचे खाजगी सचिव यांना माहितीसाठी सादर.

- ५) मा. राज्यमंत्री (उ व तं.शि) यांचे खाजगी सचिव यांना माहितीसाठी सादर.
- ६) मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक.
- ७) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक.
- ८) सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई /नाशिक/ पुणे/औरंगाबाद. (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालया मार्फत.)
- ९) संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालया मार्फत.)
- १०) संबंधित अशासकीय संस्था (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालया मार्फत.)
- ११) सह सचिव (व्यशि), उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक.
- १२) निवड नस्ती (व्यशि-४)

प्रपत्र अ

शासकीय तांत्रिक विद्यालयात सुरु असलेले माध्यमिक स्तरावरील पूर्व व्यवसायिक अभ्यासक्रम

विभाग	जिल्हा	संस्थेचे नांव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या बँच (६० विद्यार्थी)	नवीन सुधारित व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या बँच (३० विद्यार्थी)	एकूण प्रवेश क्षमता
१	२	३	४	५	६	७	८
मुंबई	मुंबई शहर	१ एलिफस्टन तांत्रिक विद्यालय, मुंबई-१	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
			एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
		२ शासकीय तांत्रिक विद्यालय, दादर, मुंबई-२८.	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	४	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
			ऑटो मोबाईल सर्व्हीस टेक्निशियन	४	ऑटो मोबाईल सर्व्हीस टेक्निशियन	४	१२०
			एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	३	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
			इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	६०
	मुंबई उपनगर	३ शासकीय तांत्रिक विद्यालय, विलेपाले, मुंबई-५६.	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	४	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
			ऑटो मोबाईल सर्व्हीस टेक्निशियन	४	ऑटो मोबाईल सर्व्हीस टेक्निशियन	४	१२०
		४ र.वा.तांत्रिक विद्यालय, खार, मुंबई-५२.	एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	३	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
			इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	६०
			एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	३	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
	५ शासकीय तांत्रिक विद्यालय, मुलुंड, मुंबई-८१.	एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	३	ऑटो मोबाईल सर्व्हीस टेक्निशियन	२	६०	
			इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	३	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
			इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	६०
		६ शासकीय तांत्रिक विद्यालय, बोरीवली, मुंबई	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
			एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
	७ शासकीय तांत्रिक विद्यालय, कुर्ला, मुंबई-८२	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	२	६०	
			एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
			एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	६०
ठाणे	८	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, ठाणे	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	२	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०

			एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
--	--	--	--	---	------------------------	---	----

..?

		रायगढ	एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
--	--	-------	--	---	------------------------	---	-----

.. ۳ ..

१	२	३	४	५	६	७	८
पुणे	पुणे	२८	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, पुणे	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	२	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४
				एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	४
		२९	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, जेजुरी	एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	४
		३०	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, खेड	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	२	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४
		३१	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, घोडगांव, ता. आंबेगांव	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	२
				एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२
	सातारा	३२	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, सातारा	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	२	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४
				एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	४
		३३	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, कराड	एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४
				एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२
	३४	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, पांचगणी	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	२	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
सांगली	३५	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, कवठेमहांकाळ	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
			एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
सोलापूर	३६	महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक प्रशाला, सोलापूर	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	२	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
			एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
	३७	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, मोहोळ	एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
कोल्हापूर	३८	शिवाजी तांत्रिक विद्यालय, कोल्हापूर	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	२	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
			एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०

१	२	३	४	५	६	७	८
पुणे	कोल्हापूर	३९	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, राधानगरी	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	२	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४ १२०
नाशिक	नाशिक	४०	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, नाशिक	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	३	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४ १२०
						ऑटो मोबाईल सर्व्हीस टेक्निशियन	२ ६०
		४१	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, मालेगांव	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	३	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	४ १२०
						इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२ ६०
	४२	४२	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, सिन्नर	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	३	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४ १२०
						ऑटो मोबाईल सर्व्हीस टेक्निशियन	२ ६०
		४३	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, इगतपुरी	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	४ १२०
						इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२ ६०
	४४	४४	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, येवला	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	२ ६०
						इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२ ६०
		४५	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, मनमाड	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२ ६०
						इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२ ६०
	४६	४६	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, चांदवड	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	२ ६०
						इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२ ६०
		४७	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, निफाड	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२ ६०
						इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२ ६०

१	२	३	४	५	६	७	८
नाशिक	४८	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, दिंडोरी	एलिमेंटस् ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	१	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
			एलिमेंटस् ऑफ इलेक्ट्रीकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
	४९	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, कळवण	एलिमेंटस् ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	१	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
			एलिमेंटस् ऑफ इलेक्ट्रीकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
	५०	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, सटाणा	एलिमेंटस् ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	१	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
			एलिमेंटस् ऑफ इलेक्ट्रीकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
	धुळे	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, धुळे	एलिमेंटस् ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	५	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	६	१८०
			ऑटो मोबाईल सर्क्हास सेक्विशन		४	१२०	
		शासकीय तांत्रिक विद्यालय, साक्री	एलिमेंटस् ऑफ इलेक्ट्रीकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	४	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	६	१८०
			इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी		२	६०	
नंदूरबार	५३	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, नंदूरबार	एलिमेंटस् ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	२	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
			एलिमेंटस् ऑफ इलेक्ट्रीकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
	५४	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, तळोदा	एलिमेंटस् ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	१	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
			एलिमेंटस् ऑफ इलेक्ट्रीकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
	५५	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, शहादा	एलिमेंटस् ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	१	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
			एलिमेंटस् ऑफ इलेक्ट्रीकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
	५६	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, नवापूर	एलिमेंटस् ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	१	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
			एलिमेंटस् ऑफ इलेक्ट्रीकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२	६०

१	२	३	४	५	६	७	८
नाशिक	नंदूरबार	५७	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, अक्कलकुआ	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	२
				एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	६०
	५८	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, अक्राणी		एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	६०
				एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	६०
	जळगांव	५९	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, जळगांव	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	४	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४
				एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	४	ऑटो मोबाईल सर्व्हेस टेक्निशियन	१२०
		६०		इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	६	१८०	
				इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	६०	
	६१	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, वरणगांव		एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	२	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४
				एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	१२०
		६२	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, जामनेर	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	२	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४
				एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	१२०
	६३	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, मुक्ताईनगर		एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	२
				एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	६०
		६४	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, अहमदनगर	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	२	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४
				एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	१२०
	६५	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, श्रीरामपूर		एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	२
				एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	६०

१	२	३	४	५	६	७	८	
ओरंगाबाद	ओरंगाबाद	७५	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, कन्नड	एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अँन्ड इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी	२	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
		७६	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, गंगापूर	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
		७७	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, सिल्लोड	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	२	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
जालना	जालना	७८	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, जालना	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
		७९	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, परतूर	एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अँन्ड इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
		८०	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, अंबड	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
		८१	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, भोकरदन	एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अँन्ड इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
		८२	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, धनसांगवी	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
बीड	बीड	८३	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, बीड	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	२	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
				एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अँन्ड इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	२	६०

..१३..

୧ ରୁପା ରୁପା ରୁପା ରୁପା ରୁପା ରୁପା ରୁପା ରୁପା ରୁପା

..१५..

୧ ରୁପା ରୁପା ରୁପା ରୁପା ରୁପା ରୁପା ରୁପା ରୁପା ରୁପା

۱۶

۹۶

୧ ରୁପା ରୁପା ରୁପା ରୁପା ରୁପା ରୁପା ରୁପା ରୁପା ରୁପା

.. ११ ..

୧ ରୁପା ଦିନରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

नागपूर	गडचिरोली	१६६	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, गडचिरोली	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	२	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
		१६७	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, आरमोरी	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	२	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
		१६८	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, कुरखेडा	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	२	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	४	१२०
		१६९	शासकीय तांत्रिक विद्यालय, सिरोंचा	एलिमेंट्स् ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	१	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	२	६०
				एलिमेंट्स् ऑफ इलेक्ट्रीकल अँण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	१	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	२	६०

प्र प त्र - ब
पूर्व व्यवसायिक अभ्यासक्रम संस्थांचा डाटा बेस
अशासकीय अनुदानित संस्थांची संस्थानिहाय व अभ्यासक्रमाची माहीती.

जिल्हा	तालुका	अ. क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बँच)	प्रवेश- क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बँच)	प्रवेश- क्षमता
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
मुंबई ¹ शहर	दादर	1	शारदा श्रम विद्यामंदीर तांत्रिक विद्यालयव कनिष्ठ महाविद्यालय	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		2	महात्मा फुले तांत्रिक विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		3	डॉ. अंटोनीओ डिसिल्वा टेक्निकल हायस्कूल मुंबई 28	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
		4	अन्जुमन -ए-इस्लाम एम.एच.साबुसिदियक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		5	गुरु नानक तांत्रिक विद्यालय,	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		6	अमुलख अमिचंद भिमाजी	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण मुंबई शहर जिल्हा		6			12	720		24	720
मुंबई ² उपनगर	बांद्रा	1	विद्या विकास एज्युकेशन सोसायटीचे विकास हायस्कूल विक्रोली	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
		2	श्री समर्थ एज्युकेशन सोसायटी व्हारा संचलित श्री समर्थ विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय जोगेश्वरी	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
मुंबई ³ उपनगर	बांद्रा	3	कांदिवली एज्युकेशन सोसायटीचे सरदार वल्लभभाई पटेल विविध लक्षी विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स कांदीवली	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ. क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
		4	खार एज्युकेशन सोसायटीचे श्री एम.एम.प्युपिल्स ओन स्कूल आणि शारदा मंदीर	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		5	फार प्रॉग्रेस अॅनेलटेक्नीकल हायस्कूल	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
		6	पाटुक पॉलिटेक्नीकल टस्टचे पाटुक टेक्नीकल हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, सांताकूझ	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		7	शिवाजी शिक्षण संस्थेचे मल्टीप्रॅप्ज टेक्निकल हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, घाटकोपर	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		8	श्री व्ही.एस.गुरुकुल टेक्निकल हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज,	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		8			2	120	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	4	120
एकूण मुंबई उपनगर		8			14	840		28	840
ठाणे	ठाणे	1	तेरणा विद्यालय, नेरुळ, नवी मुंबई	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
अंबरनाथ		2	महात्मा गांधी विद्यालय, अंबरनाथ	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	4	120
कल्याण		3	नॅशनल उर्दू टेक्निकल हायस्कूल,	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	4	120
कल्याण		4	अभिनव विद्यामंदिर, कल्याण	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
ठाणे	कल्याण	5	धनाजी नाना चौधरी विद्यालय, डॉविवली	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	4	120
	भिवंडी	6	शाह आदम शेख तांत्रिक विद्यालय, भिवंडी	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
	भिवंडी	7	एस.एच.ए.र.इस हायस्कूल, भिवंडी	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
वसई		8	काशिदास घेलाबाई तांत्रिक	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
वसई		9	निर्मल विद्यालय, वसई	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
वसई		10	अण्णासाहेब वर्तक स्मारक विद्यामंदीर वसई	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120

जिल्हा	तालुका	अ. क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
वसई	वसई	11	बी.बी.जाधव स्मारक विद्यालय,चांदिप, वसई	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
	पालघर	12	भुवनेश कितने विद्यालय,केळवा माहिम,पालघर	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
	वाडा	13	स्वामी विवेकानंद विद्यामंदीर,वाडा	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
	डहाणू	14	गोदरेज टेक्निकल इन्स्टिट्युट,आचार्य भिसे विद्यानगर,बोर्डे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
एकूण ठाणे जिल्हा					28	1680		56	1680
रायगड	खालापूर	1	जनता विद्यालय,खोपोली	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	उरण	2	अशासकीय तांत्रिक विद्यालय फुंडे उरण	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	माणगांव	3	ग.रा.मेहता माध्यमिक विद्यालय,निजामपूर	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण रायगड जिल्हा					3	180		6	180
रत्नागिरी	चिपळूण	1	प.ए.सोसायटीचे युनायटेड इंगिलिश स्कूल चिपळूण	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	चिपळूण	2	न्यू इंगिलिशस्कूल , सावर्ड,ता.चिपळूण	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	चिपळूण	3	अलोरे हायस्कूल व सी.ए.वसंतराव लाड कनिष्ठ	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	4	120
	संगमेश्वर	4	माखजन इंगिलिश स्कूल माखजन,ता.संगमेश्वर	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
रत्नागिरी	गुहागर	5	श्रीमती आर पी पालशेतकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय पालशेत ,तालुका गुहागर	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
एकूण रत्नागिरी जिल्हा					7	420		14	420
सिंधुदुर्ग	वेगुला	1	आर.के.पाटकर हयस्कूल,वेगुला	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	कणकवली	2	एस.एम.हयस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज कणकवली	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण सिंधुदुर्ग जिल्हा					2	120		4	120
एकूण मुंबई विभाग					66	3960		132	3960
नाशिक	नाशिक	1	पी.एन.मेहता एज्युकेशनल ट्रस्ट चे बैंझ टाउन पब्लिक स्कूल नाशिक-7	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	निफाड	2	कर्मवीर काकासाहेब वाघ विद्याभवन	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ. क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
			भाऊसाहेबनगर ता.निफाड जि. नाशिक	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
निफाड	3	म.वि.प्र.माधवराव बारस्ते विद्यालय आझारमिंग .ता.निफाड	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
नाशिक	4	सौ.डी.ओ. मेरी हायस्कूल, दिंडोरी रोड, नाशिक - 4.	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
येवला	5	स्वामी मुक्तानंद विद्यालय, येवला	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
नाशिक	6	वैजनाथ जिजाजी विद्यालय नांदगांव	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
बागलाण	7	जनता विद्यालय मुंजवाड ता.बागलाण जि.नाशिक	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
येवला	8	जनता विद्यालय तांत्रिक विभाग, येवला, विंचूर रोड, येवला, जि.नाशिक	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
निफाड	9	न्यू. इंगिलिश स्कूल कनिष्ठ महाविद्यालय, चांदोरी ता.निफाड	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
चांदवड	10	श्री नेमिनाथ जैन माध्यमिक विद्यालय, चांदवड, जि. नाशिक	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
एकूण नाशिक जिल्हा	10				12	720		24	720
धुळे	धुळे	1	सी.एस.बाफना हायस्कूल, फागाणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
					1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
शिरपूर	2	साने गुरुजी विद्यालय, विखरण ता.शिरपूर	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
शिरपूर	3	पी.बी.एम म्यू. हायस्कूल, शिरपूर	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
शिरपूर	4	महात्मा ज्यो.फूले विद्यालय, शिरपूर	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	4	120	
साक्री		5	आदर्श विद्यामंदिर निजामपूर-जैताणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
					1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
धुळे		6	गांधी प्रॅण्ड फूले विद्यालय,खेडे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
					1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण धुळे जिल्हा	6				10	600		20	600
नंदूबार	शहादा	1	शेठ व्ही.के.शाह विद्यामंदिर, शहादा	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ. क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बँच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बँच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
				एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण नंदूबार जिल्हा	1				2	120		4	120
जळगाव	चाळीसगांव	1	राष्ट्रिय विद्यालय तांत्रिक विभाग चाळीसगांव	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
		2	आ.ब. मुलांचे हायस्कूल, चाळीसगांव	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		3	बेलगंगा टेक्नीकल हायस्कूल, बेलगंगानगर (भोरस) ता. चाळीसगांव	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		4	रामभाऊ जिभाऊ माध्यमिक तांत्रिक विद्यालय, उंवरखेडे ता. चाळीसगांव	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	भुसावळ	5	श्री. शारदा माध्यमिक विद्यालय, दिपनगर ता. भुसावळ	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
जळगाव	यावल	6	भारत विद्यालय, न्हावी ता. यावल जि. जळगांव	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
रावेर		7	नूतन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय (तांत्रिक विभाग) चिनावल	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		8	सार्वजनिक विद्यालय, असोदा ता. जळगांव	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	अमळनेर	9	प्रताप महाविद्यालय, अमळनेर ता, अमळनेर	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
पाचोरा		10	श्री गो.स. हायस्कूल, तांत्रिक विभाग, पाचोरा ता,पाचोरा जि,जळगांव,	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		11	ग्राम विकास विद्यालय पिपळगांव हरेश्वर ता. पाचोरा	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण जळगांव जिल्हा	11				17	1020		34	1020
अहमद नगर	कर्जत	1	महात्मा गांधी तांत्रिक विद्यालय कर्जत	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	कोपरगांव	2	मा.एम.के आढाव माध्य. व तांत्रिक विद्यालय, कोपरगांव	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ. क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बॅच)	प्रवेश- क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बॅच)	प्रवेश- क्षमता
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
राहाता	3	शारदा विद्यामंदिर, राहाता.	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी		2	60
			एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल ऑन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी		2	60
पारनेर	4	श्री मुलिकादेवी विद्या मंदिर, निघोज	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी		2	60
			एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल ऑन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी		2	60
कोपरगाव	5	रयत शिक्षण संस्थेचे कर्मवीर भाऊराव पा.माध्य. व तांत्रिक विद्यालय कोपरगाव	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल ऑन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी		2	60
राहाता	6	न्यू इंग्लिश स्कूल कोल्हार बु.	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी		2	60
			एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल ऑन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी		2	60

जिल्हा	तालुका	अ. क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश- क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश- क्षमता
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
अहमद नगर	पाथर्डी	7	श्री तिलोक जैन विद्यालय, पाथर्डी	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
				एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	श्रीगांदा	8	झंदिरा गांधी विद्यानिकेतन, श्रीगांदा फॅक्टरी, ता. श्रीगांदा	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
राहाता		9	रथत शिक्षण संस्थेचे महात्मा गांधी विद्यालय, प्रवरानगर	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
नेवासा		10	श्री शनीश्वर माध्य. व उच्च माध्य. विद्यालय, सोनई ता.नेवासा	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
पाथर्डी		11	श्री वृद्धेश्वर हायस्कूल, तिसगांव ता.पाथर्डी	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
कोपरगांव		12	श्री.छत्रपती शिवाजी विद्यालय, कोळपेवाडी ता.कोपरगांव	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
अ.नगर		13	राष्ट्रीय पाठशाला हायस्कूल, स्टेशन रोड, अहमदनगर	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
पाथर्डी		14	एम.एम.नि-हाळी माध्य. व उच्च माध्य. विद्यालय, पाथर्डी	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
नेवासा		15	जिजामाता माध्यमिक व उच्च-माध्यमिक विद्यालय, ज्ञानगर, पो. भेंडे बु II, ता. नेवासा, जि. अनंगर. 414605	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकण	अहमदनगर	15			26	1560		52	1560
एकूण	नाशिक विभाग	43			67	4020		134	4020
पुणे	हवेली	1	मोलोदिना हायस्कूल व ज्युनि.कॉलेज, पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	हवेली	2	महाराष्ट्र विद्यालय, पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ. क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश- क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश- क्षमता
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
पुणे	हवेली	3	कॅम्प एज्युकेशन सोसा.चे हायस्कूल कनिष्ठ महाविद्यालय,पुणे	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		4	आर.सी.एम गुजराती हायस्कूल पुणे	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		5	संत गोरोबा शिक्षण संस्थेचे आनंद विद्यानिकेतन,पुणे	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		6	फतेचंद जैन विद्यालय,पुणे	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		7	ज्ञान प्रबोधनी नवनगर विद्यालय,पुणे	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	4	120
		8	महात्मा गांधी विद्यालय उरलीकांचन,पुणे	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
				एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	4	120
		9	रथत शिक्षण संस्थेचे कृष्णाजी खंडूजी घुले विद्यालय,	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		10	जयहिंद टेक्निकल हायस्कूल लोणीकाळभोर,पुणे	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		11	नव महाराष्ट्र विद्यालय,व. ज्युनिअर कॉलेज पिंपरी	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
आंबेगाव	12	रथत शिक्षण संस्थेचे भेरवनाथ्र माध्यमिक तांत्रिक व कि.कौशल्य विद्यालय,अवसरी खु.	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
पुरंदर	13	पंचकोशी शेतकरी तांत्रिक विद्यालय,पुरंदर,पुणे	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
पुरंदर	14	पुरंदर हायस्कूल,सासवड,पुणे	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
पुरंदर	15	रथत शिक्षण संस्थेचे महर्षी वाल्मीकी विद्यालय,वाळ्हे,पुणे	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
जुन्नर	16	हिंदमाता विद्यालय,बडगावकाढ झी,जुन्नर,पुणे	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
जुन्नर	17	न्यु इंग्लिश स्कूल शिरोली,पुणे	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
पुणे	जुन्नर	18	श्री महालक्ष्मी विद्यालय,ुब्रज,पुणे	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120

जिल्हा	तालुका	अ. क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बैच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बैच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
	हवेली	19	न्यु इंग्लिश स्कूल शिरु, पुणे	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	इंदापूर	20	वर्धमान विद्यालय, पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	इंदापूर	21	श्री शिवाजी विद्यालय, बाबडा, पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	इंदापूर	22	श्री छत्रपती हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज, पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	हवेली	23	श्री शिवाजी छत्रपती आयटीसी केंद्र शुक्रवारपेठ, पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
					3	180	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी अॅटो मोबाईल टेक्नॉलॉजी	4	120
	बारामती	24	आर.एन.आगरवाल टेक्निकल इन्टियूट बारामती, पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
	बारामती	25	शारदाबाई पवार विद्यालय, बारामती, पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	बारामती	26	सोमेश्वर विद्यालय सोमेश्वर नगर, बारामती, जिल्हा - पुणे	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	बारामती	27	आनंद विद्यालय, होठ बारामती, जिल्हा-पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	भोर	28	राजा रघुनाथराव विद्यालय, भोर, जिल्हा - पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण पुणे जिल्हा		28			44	2640		88	2640
सातारा	खटाव	1	हनुमान हायस्कूल तांत्रिक विभाग, पूसेगाव	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	कोरेगाव	2	चंद्रकांत वसंतराव दादा पाटिल तांत्रिक विभाग, कोरेगाव	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	फलटण	3	यशवंत चळाण हायस्कूल फलटण	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		4	फलटण हायस्कूल व तांत्रिक विभाग फलटण	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		5	साखरवाडी विद्यालय साखरवाडी	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
	कराड	6	दादासाहेब उडाळकर विद्यालय, उडाळे	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण सातारा जिल्हा		6			7	420		14	420
सांगली	वाळवा	1	विद्यामंदिर हायस्कूल, इस्लामपूर	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ. क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
		2	मॉडर्न साखराळे	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
पलूस	स्वा. रा. रामानंदनगर	3		एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
मिरज	सांगली हायस्कूल, सांगली	4		एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	4	120
कडेगांव	महात्मा गांधी विद्यालय, कडेगांव	5		एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
वाळवा	आझाद विद्यालय, कासेगांव	6		एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
मिरज	जवाहर हायस्कूल, मिरज	7		एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
जत	जत हायस्कूल, जत	8		एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
कडेगांव	तात्यारावजी तडसर	9		एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
वाळवा	हुताम्ता किसन अहिर, वाळवा	10		एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
कवठे महांकाळ	श्रीमान ना. ता. सगरे विद्यालय, हिंगणगांव	11		एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
मिरज	जी. ए. हायस्कूल सांगली	12		एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
मिरज	न्यू इंगिलिश स्कूल क. डिग्रज	13		एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
पलूस	प्रतीनीधी हायस्कूल, कुंडल	14		एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
पलूस	लक्ष्मणराव किलोस्कर, पलूस	15		एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
शिराळा	हुताम्ता नानकसिंग विद्यालय, सोनवडे	16		एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
सांगली	मिरज	17	विद्यामंदिर प्रशाला, मिरज	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ. क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
तासगाव				एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नालॉजी	2	60
	18	स्वा. रा. भारती विद्यामंदिर, तासगाव		एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नालॉजी	2	60
	19	हिंदरत्न प्रकाशबापू पाटील मा. विद्यालय, मालगांव		एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नालॉजी	2	60
	20	महात्मा गांधी विद्यालय, विटा		एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नालॉजी	2	60
	21	न्यू. इंगिलिश स्कूल कवठेएकंद		एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नालॉजी	2	60
एकूण सांगली जिल्हा					30	1800		60	1800
सोलापूर	सोलापूर	1	पदमश्री सुमतीबाई शहा इंगिलिश मिडीयम स्कूल सोलापूर	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नालॉजी	2	60
	सोलापूर	2	श्री.विरतपस्त्री चन्द्रबीर शिवाचार्य तांत्रिक विद्यालय,होट गो ता.सोलापूर	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नालॉजी	2	60
बार्शा		3	महाराष्ट्र विद्यालय, बार्शा, सोलापूर	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नालॉजी	2	60
		4	बार्शा तांत्रिक हायस्कूल बार्शा	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नालॉजी	2	60
बार्शा		5	विद्यामंदीर हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज वैराग,बार्शा, ता.सोलापूर	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नालॉजी	2	60
बार्शा		6	शेठ अगरचंद कुंकूलोळ हायस्कूल बार्शा,जि.सोलापूर	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नालॉजी	2	60
बार्शा		7	सुलाखे हायस्कूल बार्शा,जि.सोलापूर	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नालॉजी	2	60
बार्शा		8	मल्टिपर्ज आदर्श न्यू.इंगिलिश स्कूल गोडगांव ता.बार्शा जि.सोलापूर	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नालॉजी	2	60
पंढरपूर		9	विवकवधिनी विद्यालय,पंढरपूर	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नालॉजी	2	60
		10	विठल प्रशाला,वेणूनगर, ता.पंढरपूर	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नालॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ. क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
		11	द.ह.कवठेकर प्रशाला,पंढरपूर, जि.सोलापूर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
पंढरपूर		12	लोकमान्य विद्यालय,पंढरपूर,जि. सोलापूर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
माळशिरस		13	महर्षि शंकरराव मोहिते प्रशाला, यशवंतनगर,ता.माळशिरस रसिज.सोलापूर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
माळशिरस		14	कर्मवीर बाबासाहेब पाटील विद्यालय,सदाशिवनगर,ता.माळशिरस,	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
माळशिरस		15	कृष्णानंद विद्यामंदीर,पाटील वस्ती अकलुज ,ता.माळशिरस, जि.सोलापूर	एलिमेट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		16	मॉडेल विविधांगी प्रशाला व ज्यु.कॉलेज ,	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
सांगोला		17	विद्यामंदीर हायस्कूल एखतपूर ता.सांगोला, जि.सोलापूर	एलिमेट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
सांगोला		18	न्यु.इंगिलिश स्कूल व ज्यु.कॉलेज सांगोला,जि. सोलापूर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
सांगोला		19	सांगोला विद्यामंदीर प्रशाला व ज्यु.कॉलेज , सांगोला जि.सोलापूर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
मंगळवेदा,		20	इंगिलिश स्कूल मंगळवेदा, जि.सोलापूर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
माढा		21	सो.उमा विद्यालय,व कनिष्ठ महाविद्यालय,मोडिंनिब ,ता.माढा	एलिमेट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
माढा		22	आंतर भारती विद्यालय,कुर्द्वाडी, ता.माढा,जि.सोलापूर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
करमाळा		23	भारत हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज, जेऊर ,ता.करमाळा जि.सोलापूर	एलिमेट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
करमाळा		24	महात्मा गांधी तांत्रिक विद्यालय, करमाळा जि.सोलापूर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ. क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
सोलापूर	सोलापूर	25	श्री.डी.जे.गुरुकूल प्रशाला व ज्यु.कॉलेज बाळीवेस, जि.सोलापूर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	अक्कलकोट	26	ग्रामोण विद्याविकास विद्यालय, चपळगांव, ता.अक्कलकोट, जि.सोलापूर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण सोलापूर जिल्हा		26			31	1860		62	1860
कोल्हापूर	हातकणंगल	1	हूपरी इंगिलिश स्कूल हूपरी ता.हातकणंगले जि.कोल्हापूर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	हातकणंगले	2	श्री.पाराशर ज्यु.कॉलेज पारगांव, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	हातकणंगले	3	श्री. एम. जी. शहा विद्यामंदीर बाहूबल्ली ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		4	गोविंदरावा हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज,इचलकरंजी , ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		5	रत्नदीप हायस्कूल ,कबनूर ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		6	वडगांव हायस्कूल, वडगांव ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		7	श्री.रामराव इंगवले हायस्कूल ,हातकणंगले, जि.कोल्हापूर	एलिमेट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	करवीर	8	महाराष्ट्र हायस्कूल , कोल्हापूर, ता.करवीर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
				एलिमेट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	4	120
		9	श्रीराम हायस्कूल व ज्यु.कॉलेज कुडीत्रे ता.करवीर, जि.कोल्हापूर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		10	श्री साई हायस्कूल दसरा चौक, कोल्हापूर,ता.करवीर	एलिमेट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
कोल्हापूर		11	श्री.शाहू दयानंद हायस्कूल ,मंगळवार पेठ,कोल्हापूर	एलिमेट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ. क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
कागल	दुधसाखर विद्यानिकेतन व कनिष्ठ महाविद्यालय बिद्री, ता. कागल	12	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
		13	श्री शाहू हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज कागल, ता. कागल, जि. कोल्हापूर	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
	दादासाहेब मगदुम हायस्कूल कसबा सांगावा ता. कागल, जि. कोल्हापूर	14	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
		15	मूरगुड विद्यालय, मुरगुड ता. कागल, जि. कोल्हापूर	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
पन्हाळा	कोडोली हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज कोडोली ता. पन्हाळा	16	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
शिरोळ	बळवंत राव झेले हायस्कूल ज्यु. कॉलेज जयसिंगपूर ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर	17	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120	
		18	उदगांव टेक्निकल हायस्कूल उदगांव ता. शिरोळ	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
शिरोळ	साने गुरुजी विद्यालय, कुरुंदवाड, ता. शिरोळ	19	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
शिरोळ	लक्ष्मी नारायण हायस्कूल माले हायस्कूल जयसिंग ता. शिरोळ,	20	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
शिरोळ	नांदणी हायस्कूल नांदणी, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर	21	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
शिरोळ	एस. पी. हायस्कूल कुरुंदवाड ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर	22	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
गडहिंगलज	न्यु. इंगिलिश स्कूल, नूल, ता. गडहिंगलज, जि. कोल्हापूर	23	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
राधानगरी	शिवाजीराव खोराटे विद्यालय, सरवडे ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर	24	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	

जिल्हा	तालुका	अ. क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बॅच)	प्रवेश- क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बॅच)	प्रवेश- क्षमता
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
भुदरगड	श्री.शाहूकुमार भवन, गारगोटी , ता.भुदरगड, जि.कोल्हापूर	25	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी		2	60
			एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी		2	60
एकूण कोल्हापूर जिल्हा	25			38	2280			76	2280
एकूण पुणे विभाग	106			150	9000			300	9000
अमरावती	अमरावती	1	शिवाजी बहुउद्देशीय उच्च माध्यमिक शाळा, शिवाजी नगर, ता. जि. अमरावती	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
धामणगांव रेल्वे,	2	देवराव ठाकरे विद्यालय, अशोकनगर, ता. धामणगांव रेल्वे, जि. अमरावती	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी		2	60
वरूड	3	श्री. माधवरावजी उमेकर विद्यालय, टेंभूरखेडा, ता. वरूड, जि. अमरावती	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी		2	60
नांदगांव खंडेश्वर	4	विकास विद्यालय, वेणी गणेशपूर, ता. नांदगांव खंडेश्वर, जि. अमरावती	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी		2	60
धामनगांव रेल्वे	5	श्री. साईबाबा विद्यालय, तांत्रिक विभाग, अंजनरिंगी, ता. धामनगांव रेल्वे, जि. अमरावती	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी		2	60
मोर्शी	6	शिवाजी उच्च माध्यमिक शाळा, ता. मोर्शी, जि. अमरावती	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी		2	60
अचलपूर	7	जयसिंग तंत्र माध्यमिक विद्यालय, पश्चोट, ता. अचलपूर, जि. अमरावती	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी		4	120
एकूण अमरावती	7			9	540			18	540
बुलढाणा	मोताळा	1	राष्ट्रीय तांत्रिक विद्यालय,पिंप्रीगवळी ता.मोताळा	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
	देऊळगांव राज	2	देऊळगांव राजा हायस्कूल ,देऊळगांव राजा	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
	देऊळगांव राज	3	न.प.शिवाजी हायस्कूल देऊळगाव राजा	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
एकूण बुलढाणा	3			6	360			12	360
अकोला	अकोला	1	ठिळक राष्ट्रीय सरस्वती तांत्रिक विद्यालय,पोटी उमरी	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
अकोला	बार्शिटाकळी	2	ज्ञानप्रकाश तांत्रिक विद्यालय,पिंजर	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	4	120

जिल्हा	तालुका	अ. क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बँच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बँच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
पातूर	3	तुळसाबाई कावळ तांत्रिक विद्यालय, पातूर	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	4	120	
	4	देशभक्त तांत्रिक विद्यालय, तांदळी खुर्द ता. पातूर	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	4	120	
	5	अकोट कृषी तांत्रिक विद्यालय, अकोट	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	4	120	
एकूण अकोला	5			10	600		20	600	
वाशिम	मानोरा	1	आप्पास्वामी तांत्रिक विद्यालय, शेदुरजना अढाव	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
एकूण वाशिम	1			2	120		4	120	
यवतमाळ	कळंव	1	शिवशक्ती तांत्रिक विद्यालय, कोठा (वेणी)	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		2	विवेकानंद तांत्रिक विद्यालय, वणी	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण यवतमाळ	2			2	120		4	120	
एकूण अमरावती विभाग	18			29	1740		58	1740	
औरंगाबाद	औरंगाबाद	1	डॉ. झाकोर हुसेन टेक्निकल हायस्कूल, शहागंज, औरंगाबाद	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
खुलताबाद	खुलताबाद	2	गुरुदेव समंतभद्र विद्यामंदिर तांत्रिक विभाग, वेरूळ	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
कन्नड	कन्नड	3	नागेश्वर विद्यालय (तांत्रिक विभाग), नागापूर	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
पैठण	पैठण	4	श्री. सरस्वती भुवन विद्यालय, बिडकीण ता. पैठण जि.	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	4	120
औरंगाबाद	औरंगाबाद	5	श्री. सरस्वती भुवन प्रशाला, औरंगपूरा (तांत्रिक विभाग)	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	4	120
औरंगाबाद	औरंगाबाद	6	श्री. 1008 चिंतामणी पाश्वरनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्रा, कचनेर ट्रस्ट द्वारा-संचलित श्रीमती धन्नाबाई दिपचंद गंगवाल तांत्रिक प्रशाला	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	4	120
औरंगाबाद	औरंगाबाद	7	एमआयटी त्रंत्र प्रशाला, सातारा परिसर, बीड बायपास, एमआयटी कॅम्पस, औरंगाबाद	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण औरंगाबाद जिल्हा	7			12	720		24	720	
जालना		0	निरंक						
एकूण जालना जिल्हा				0	0		0	0	
परभणी		0	निरंक						

प्रपञ्च - क
पूर्व व्यवसायिक अभ्यासक्रम
विना अनुदानित संस्थांच्या अभ्यासक्रमाची माहीती.

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	संस्था सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बँच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकड्या (बँच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मुंबई शहर	दादर	1	जान मोह कासम हायस्कूल अंजूमन इस्लाम भायखळा	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	4	120
एकूण मुंबई शहर	1				2	120		4	120
मुंबई उपनगर	बोरीवली	1	विक्रोली जनता शिक्षण प्रसारक मंडळचे प्रगती विद्यालय बोरीवली	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		2	विद्यार्थी विकास मंडळचे अहिल्या विद्यालय हायस्कूल	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		3	राष्ट्रीय बहुउद्देशीय समाज सेवा मंडळ व्हारा संचलित प्रियदर्शनी विद्यालय,चारकोप कांदिवली	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	इंडियन एज्युकेशन सोसायटी चे न्यु इंग्लिश स्कूल,वांद्रे	4	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
			एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	4	120	
		5	द बोरीवली सोसायटी संचलित शेठ गोपाळजी हेमराज हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय,बोरीवली	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	इंडियन एज्युकेशन सोसायटी माध्यमिक शाळा कांदिवली		एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
		6	इंडियन एज्युकेशन सोसायटी माध्यमिक शाळा कांदिवली	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	4	120
एकूण मुंबई उपनगर	6				10	600		20	600
ठाणे	ठाणे	1	फादर एंगेल ,वाशी,नवी मुंबई	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
	ठाणे	2	सेंट मेरी ज्यु.कॉलेज,वाशी	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
	ठाणे	3	श्री.पॉ.विद्यालय, घोडबंदर, ठाणे	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	4	120
कल्याण	4	भारतीय विद्या प्रबोधिनी माध्यमिक विद्यालय,कल्याण	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120	

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	विक्रमगड	5	छत्रपती शिक्षण मंडळाचे विक्रमगड हायस्कूल विक्रमगड	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	4	120
	तलासरी	6	छत्रपती शिक्षण मंडळाचे संचालित माध्यमिक विद्यालय, तलासरी	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	2	120	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	4	120
	डहाणू	7	श्री गणपती अंबाजी लोकसेवा निधी द्वारा तारापूर विद्यामंदीर तारापूर	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
	विक्रमगड	8	कुऱ्ह विभाग हायस्कूल, विक्रमगड	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	2	120	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	4	120
	ठाणे	9	हबीब एज्युकेशन अॅण्ड वेल्फार सोसायटीचे शोएब हायस्कूल अॅण्ड ज्यु.कॉलेज, मुंब्रा	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	4	120
	उल्हासनगर	10	न्यू.इंगिलिश हायस्कूल, उल्हासनगर	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रोकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रोकल टेक्नॉलॉजी	4	120
एकूण ठाणे जिल्हा	10				20	1200		40	1200
रायगड			नि रं क		0	0		0	0
एकूण रायगड जिल्हा	0	नि रं क			0	0		0	0
रत्नागिरी	राजापूर	1	जुगा जाकादेवी शिक्षण प्रसारक मंडळ वडदहसोळ, तालुका - राजापूर	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	चिपळूण	2	प.ए.सोसायटीचे युनायटेझिलिश स्कूल, चिपळूण, ता.चिपळूण	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	चिपळूण	3	मंदार एज्युकेशन सोसायटीचे सौ.शैलजा शिंदे माध्यमिक विद्यालय, पेढांबे ता.चिपळूण	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	संगमेश्वर	4	कोळंबे परिसर विद्या प्रसारक मंडळ कोळंबे संचालित श्रीमती क.पां.मुळये हायस्कूल कोळंबे ता.संगमेश्वर	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बैच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बैच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
लांजा	5	गोकूळ प्रतिष्ठान आश्रमशाळा पन्हळे - कुवे, तालुका - लांजा, जिल्हा-रत्नागिरी	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60	
	6	एम.एस.नाईक फाऊंडेशनचे मोहम्मद सिदददारीकी नाईक हायस्कूल, डॉ. आंबडेकर मार्ग, रत्नागिरी	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
	7	हेरिटेज कल्चर आर्ट्स अँण्ड एज्युकेशन डेव्हलपमेंट सोसायटीचे न्यु इंशिलश स्कूल, जावडे, ता.लांजा, जिल्हा - रत्नागिरी	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60	
एकूण रत्नागिरी	7				7	420		14	420
सिधुर्गा	मालवण	1	शांतादुर्गा हायस्कूल बडाचा पाट	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	मालवण	2	भंडारी ए.सो.हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मालवण	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	सावंतवाडी	3	व्ही.एन.बाबर मेमोरियल इंशिल शिंगीयम स्कूल बांदा	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	कणकवली	4	शंकर महादेव विद्यालय, कुंभवडे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	कुडाळ	5	नर्मदाबाई अनंत देसाई हायस्कूल कुडाळ	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण सिधुर्गा	5				5	300		10	300
एकूण मुंबई विभाग	29				44	2640		88	2640
नाशिक	नाशिक	1	श्री. भा.वि.जोशी महाराष्ट्र हायस्कूल उपनगर नाशिक	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	नाशिक	2	सरखती एज्यु. संचिलत देवठाली हायस्कूल देवठाली कॅम्प	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
	नाशिक	3	सी.डी.ओ. मेरी हायस्कूल, दिंडोरी रोड, नाशिक - 4.	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नाशिक	नाशिक	4	साने गुरुजी शिक्षण प्रसारक मंडळ नाशिकरोड एस.के. पांडे विद्यालय, चेहडी	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		5	न्यू इंग्लॉश स्कूल अॅड ज्युनियर कॉलेज बारागाव पिंपरी	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
				एलिमेंटस ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	2	60
नाशिक	6	के. जे. मेहता हायस्कूल, नाशिकरोड, नाशिक	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	4	120	
एकूण नाशिक जिल्हा	6				9	540		18	540
धुळे	साक्री	1	जीवन ज्योती फूले एज्यू.सो. कै.बलीरामदावा माध्यमिक विद्या. ब्राह्मणवेल ता.साक्री	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	साक्री	2	शिवाजी माध्यमिक विद्यालय, शेवाळी ता.साक्री	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	साक्री	3	नूतन मराठा विद्यालय, छडवेल कोडे ता.साक्री	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	साक्री	4	बाबा आमटे भारत जोडे आश्रम शाळा, साक्री (विजाभज माध्य) ता.साक्री	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
एकूण धुळे जिल्हा	4				4	240		8	240
नंदूरबार	नंदूरबार	1	सावंत विद्याप्रसारक मंडळाचे जीटीपी कन्या हायस्कूल, तिलाली शनिमांडळ	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
एकूण नंदूरबार जिल्हा	1				1	60		2	60

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जळगांव	रावेर	1	धनाजी नाना विद्यालय व उच्च माध्य विद्यालय, खिरोदा ता. रावेर	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	रावेर	2	गुरुकुल अनुसूचित जातीसाठी माध्यमिक विद्यालय, पाल, ता. रावेर	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	रावेर	3	माध्यमिक आश्रम शाळा, लोहारा, ता. रावेर	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	रावेर	4	द.न. वांद्रेकर माध्यमिक आश्रम शाळा पाल, ता. रावेर	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
एकूण जळगांव जिल्हा	4				4	240		8	240
अहमदनगर	राहुरी	1	के. जनार्दन काळे पाटील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिंचोली, ता. राहुरी, जि. अहमदनगर	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	राहाता	2	श्री.छत्रपती शिवाजी विद्यालय, पाथरे बु. ता.राहता जि अहमदनगर	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	श्रीरामपूर	3	प्रबराग्यापीण शिक्षण संस्थेचे प्रवरा विद्यानिकेतन, फत्याबाद, श्रीरामपूर	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	राहाता	4	पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव एकनाथ विखे पाटील विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, बाभळेश्वर, राहता	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	राहाता	5	महात्मा फुले विद्यालय, दाढ बु. राहता	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	संगमनेर	6	कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालय, आश्वी, खुर्द ता संगमनेर	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बैच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बैच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राहता	7	श्री. यशवंतराव चळाण विद्यालय, राजूरी ता. राहता	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	शेवगाव	8	नवजीवन माध्यमिक विद्यालय, दहिगांव-ने, शेवगाव	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	शेवगाव	9	कै विमलबाई गंगाणग्धर माध्यमिक विद्यालय, दहिगांव-ने, शेवगाव	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	संगमनेर	10	रयत शिक्षण संस्थेचे अश्वी इंगिलिश स्कूल अश्वी बु. संगमनेर	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	राहूरी	11	नानासाहेब सहादू कडू पाटील विद्यालय, सात्रळ, ता. राहूरी	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	शेवगाव	12	आबासाहेब काकडे विद्यालय, शेवगाव	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course) मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	अहमदनगर	13	काकासाहेब म्हस्के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, नागापूर, ता. अहमदनगर	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	संगमनेर	14	ज्ञानगंगा विद्यानिकेतन मांची हिल, ता. संगमनेर	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	पारनेर	15	हिंदवी संस्था संचलित श्री. मळगंगा विद्यालय, निघोज, ता पारनेर	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	राहता	16	रयत शिक्षण संस्थेचे प.डॉ. वि. वि. पाटील विद्यालय, लोणी, ता.	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बँच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बँच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			राहता.	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण अहमदनगर	16				19	1140		38	1140
एकूण नाशिक विभाग	31				37	2220		74	2220
पुणे	हवेली	1	जे.एन.पेटीट टेक्निकल स्कूल	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
मुळशी		2	विवेकानंद विद्यालय,आसदे ता.मुळशी,जि.पूणे	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
				मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
				मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
पुरंदरे	4	श्री घाडगे महाराज विद्यालय	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
पुरंदरे	5	हुतात्मा उमाजी नाईक हायस्कूल,भिवंडी,ता.पुरंदरे,जिल्हा - पुणे	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60	
सावळे	6	अंड पु.वा.परांजपे विद्यामंदीर,तळेगाव, दाभाडे,ता.सावळे,जिल्हा - पुणे	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
	7	श्री काळभैरव शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कै.रामराव मेनुजी पालांडे माध्यमिक आश्रमशाळा,पुणे	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60	
हवेली,	8	लोकनेते दादाजाधवराव माध्यमिक विद्यालय,हिंगणगाव,ता. हवेली,जिल्हा - पुणे	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60	

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	शिरवणे	9	संत यादवबाबा विद्यालय, शिरवणे	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	बारामती	10	महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे के.गजानन भिवराव देशंपांडे विद्यालय, व. उच्च माध्यमिक विद्यालय, बारामती जि. पुणे	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		11	उमाताई लोखंडे चॅरिटेबल ट्रस्ट माध्यमिक विद्यालय, पुणे	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		12	हिरकणी विद्यालय, गावडेवाडी पुणे	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		13	न्यू इंगिलिश स्कूल, गुरोळी, पुणे	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
इदापुर		14	आदर्श माध्यमिक लासूणे, ता. इदापुर, जि. पुणे	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		15	सौ विमलाभाई गरवारे हायस्कूल व कनिष्ठ विद्यालय, पुणे	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		16	विज्ञान आश्रम पाबळे, पुणे	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
तळेगाव		17	नविन समर्थ विद्यालय, तळेगाव, पुणे	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		18	श्री छत्रपती हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, भवानीनगर, पुणे	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		19	पिंगुट इंगिलिश स्कूल, मुळाशी, पुणे	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
हवेली		20	महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे मुलांचे विद्यालय, व. उच्च माध्यमिक विद्यालय, सदाशिव पेठ, पुणे	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		21	बालशिक्षण मंदीर, मयूर कॉलनी, पुणे	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
सावर्डे		22	संपर्क ग्रामीण विद्याविकास सावर्डे, पुणे	एलिमेंटस ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	आंबेगाव	23	पंढरीनाथ विद्याविकास मंदीर, पोखरी ता. आंबेगाव, पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		24	यशवंतरावजी चव्हाण शिक्षण प्रसारक मंडळ, पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	दौड	25	भैरवनाथ शिक्षण मंडळाचे उच्च माध्यमिक विद्यालय, दौड, पुणे	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	हवेली	26	विद्या प्रतिष्ठान महाराष्ट्र व्यारासंचिलत श्री. सरस्वतीविद्यामंदीर माध्यमिक ड्हाणूकर कॉलनी, ८वा रस्ता कोथडू, पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		27	पुणे छावणी पदोपदच डॉ. आंबेडकर मेमोरियलहायस्कूल सोलापूर बाजार, पुणे	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	आंबेगाव	28	श्री परमार्षिक सेवा संघ मुंबई व्यारा संचलित श्री भैरवनाथ विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, मु. पो. शिंगवे, ता. आंबेगाव, जिल्हा - पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	पुरंदर	29	श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ सासवड संचलित श्री केदरेश्वर माध्यमिक विद्यालय, व ज्युनिअर कॉलेज, काळदरी, ता. पुरंदर, जिल्हा - पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	पुरंदर	30	महाराष्ट्र एज्यु.सोसा.चे वाघिरे विद्यालय, सासवड, ता. पुरंदर, जिल्हा- पुणे	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	पुरंदर	31	आचार्य आब्रे विकास प्रतिष्ठान पुरंदर संचलित, न्यू इंग्लिश स्कूल जेऊर, ता. पुरंदर, जिल्हा - पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरींग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बैच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बैच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	आंबेगाव	32	श्री परमार्थिक सेवा संघ मुंबई व्हारा संचिलित श्री संगमेश्वर माध्यमिक व कै बाकूराव गेणुजी ढोबळे उच्च माध्यमिक कला व वाणिज्य विद्यालय, पारगाव शिंगावे, ता. आंबेगाव, जि ल्हा - पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		33	विनितापञ्चुकेशनचॉरीटेक ल ट्रस्टचे ज्ञानदिप इंगिलिश मिडियम स्कूल , वडगाव, पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		34	श्री काळभैरव शिक्षण प्रसारक मंडळाचे प्रगती हायस्कूल मुख्यई, पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		35	न्यु.इंगिलिश स्कूल धामारी ता.शिरुर पूणे	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
शिरुर		36	श्री भैरवनाथ विद्यालय, प्राबळ, ता. शिरुर, जिल्हा - पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
हवेली		37	दि पुना गुजराठी केळवाणी मंडळाचे डॉ. जी. जी. शाहा इंगिलिश मिडियम हायस्कूल कसबा जिल्हा - पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		38	मराठवाडा मित्र मंडळाचे एम एस विद्यामंदीर माध्यमिक विभाग, थेरगांव, काळवाडी जि. - पुणे	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
बारामती		39	अंग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट संचिलित शारदाबाई पवार विद्यानिकेतन, शारदा नगर, बारामती	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण पुणे जिल्हा		39			40	2400		80	2400
सातारा	फलटण	1	जानाई हायस्कूल, राजोळी	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कोरेगाव	2	न्यू इंग्लिश स्कूल, शिरढोण	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	फलटण	3	वेणूताई चक्काण हायस्कूल, तरडगाव	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	कोरेगाव	4	कोलहेश्वर विद्यालय, तांदुळवाडी ता कोरेगाव	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	खटाव	5	विद्याविकास मंदिर, कलेढोण	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	फलटण	6	वेणूताई चक्काण हायस्कूल, फलटण	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अँन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	खंडाळा	7	ज्ञानवर्धनी शिक्षण संस्था संचलित शरवळ	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	सातारा	8	पेरेल्ट्स असोसेशन इंग्लिश स्कूल, सातारा	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
एकूण सातारा जिल्हा		8			8	480		16	480
सांगली	मिरज	1	एस. एम. हायस्कूल, मालगाव	एलिमेंट्स ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	मिरज	2	हिंदरत प्रकाशबापू पाटील मा. विद्यालय, मालगाव	एलिमेंट्स ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	आटपाडी	3	पंडित दिनदयाळ माध्यमिक विद्यालय, दिघंची	एलिमेंट्स ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बैच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बैच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मिरज	4	विद्यार्थिंदिर प्रशाला, मिरज	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	मिरज	5	सांगली हायस्कूल, सांगली	एलिमेंटस ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	खानापूर	6	माध्यमिक प्रशाला बेणापूर	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	मिरज	7	न्यू. इंगिलिश स्कूल, मिरज	एलिमेंटस ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	कवठे महांव	8	आदर्श प्रशाला, नागज	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	मिरज	9	न्यू. इंगिलिश स्कूल, सोनी	एलिमेंटस ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	मिरज	10	न्यू. इंगिलिश स्कूल, नरवाड	एलिमेंटस ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण सांगली जिल्हा		10			11	660		22	660
सोलापूर	माळशिरस	1	श्रीराम माध्यमिक विद्यालय, तंत्र विभागयुक्त, व कनिष्ठ महाविद्यालय, पानीव	एलिमेंटस ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		2	शारदाताई गोविंदराव पवार विद्यालय, केम	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
		3	उमाबाई श्राविका विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, सोलापूर	एलिमेंटस ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण सोलापूर जिल्हा		3			3	180		6	180
कोल्हापूर		0	निरंक						
एकूण कोल्हापूर		0			0	0		0	0
एकूण पुणे विभाग		60			62	3720	0	124	3720

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अमरावती	वरूड	1	जनता हायस्कूल, शेंदुरजनाधाट, ता. वरूड, जि. अमरावती	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	चांदूर बाजार	2	पंचाशिल तंत्रामाध्यमिक आदिवासी आश्रम शाळा, वहिरम कारंजा ता. चांदूर बाजार, जि. अमरावती	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	चिखलदरा	3	श्री. स्वामी गजानन माध्यमिक विद्यालय, गरजदरो, ता. चिखलदरा, जि. अमरावती	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	नांदगांव खंडे	4	श्रीमंत एन. डी. पांडे आदर्श हायस्कूल, धानोरा गुरव, ता. नांदगांव खंडे, जि. अमरावती	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	वरूड	5	वसंतराव नाईक हायस्कूल, जरूड, ता. वरूड, जि. अमरावती	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60			
	चिखलदरा	6	वनवासी माध्यमिक विद्यालय, सोनापूर, ता. चिखलदरा, जि. अमरावती	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण अमरावती		6			8	480		16	480
बुलढाणा	बुलढाणा	1	संभाजी राजे माध्यमिक विद्यालय, डॉगरखेडाळा ता.जि.बुलढाणा	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		2	म.वा.पातुरकर विद्यालय,डोणगांव,ता.मे हकर,जि.बुलढाणा	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		3	विद्या विकास विद्यालय,वाकोडी, ता.मलकापूर	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		4	विवेकानंद विद्यालय एकलारा ता.चिखली,जि.बुलढाणा	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		5	प्रियदर्शनी विद्यालय,बोराखेडी ता.मोताळा	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	आदर्श विद्यालय, चिखली			मुलभूत तंत्रज्ञानाची टॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
				एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
7	नूतन विद्यालय, किनगांव राजा ता. सिंदखेड राजा			एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
8	जीवन विकास विद्यालय, दुसराबिड ता. सिंदखेड राजा			एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
9	लालबहादूर तांत्रिक विद्यालय, हिवरखेड ता. खामगांव			एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
10	मौलान अबुल कलाम आझाद विद्यालय, धाड, ता. बुलढाणा			एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
11	कुलस्वामिनी माध्यमिक विद्यालय, पिंपळगाव देवी ता. मोताळा, जि. बुलढाणा			मुलभूत तंत्रज्ञानाची टॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
12	स्व. भास्करराव शिंगणे माध्यमिक विद्यालय, बोरजवळा, ता. खामगांव			एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
13	जनता विद्यालय, पिंपळगाव सराई ता. जि. बुलढाणा			एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
14	चक्रधर स्वामी विद्यालय, मठ, ता. बुलढाणा			मुलभूत तंत्रज्ञानाची टॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
15	राजे छत्रपती माध्यमिक विद्यालय, जयपूर ता. मोताळा, जि. बुलढाणा			मुलभूत तंत्रज्ञानाची टॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
16	जे.बी.मुरारका माध्यमिक विद्यालय, शेगांव ता. शेगांव, जि. बुलढाणा			एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		17	परमानंद तांत्रिक विद्यालय, काटोडा, ता. चिखली	एलिमेंट्स ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		18	जिजाऊ माध्यमिक विद्यालय, ता. निबुलढाणा	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
		19	अंजुमन कनिष्ठ महाविद्यालय, खामगाव	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		20	आदिवासी आश्रम शाळा जळगांव जामोद ता. जामोद	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		21	गाडगे महाराज विद्यालय दहिगांव ता. नांदुरा	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		22	स्व. भास्करराव शिंगणे विद्यालय, खाल्याळ गड्घाण ता. देऊळगांव राजा	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		23	एम.ई.एस.विलालय, मेहकर, ता. मेहकर	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		24	एम.ई.एस.विद्यालय, साखरखेडा ता. सिदखेडा राजा	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		25	तपकरिया नुरुबानो नॅशनल विद्यालय, लाखनवाडा, ता. खामगांव	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		26	अमर विद्यालय, अमडापूर, ता. चिखली	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
		27	जे.क्वी मेहता विद्यालय, खामगांव, ता. खामगाव	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
				एलिमेंट्स ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बँच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बँच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		28	स्व.भास्कराव शिंगणे विद्यालय, धोत्रा नंदुई, ता. देऊळगांव राजा	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		29	नूतन विद्यालय, मलकापूर ता. मलकापूर	एलिमेंटस ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		30	जानकीदेवी विद्यालय, देऊळगांव घुबे, ता. चिखली	मूलभूत तंत्रज्ञानाची तोड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
		31	डिई.एस.विद्यालय, धरणगांव ता. मलकापूर	एलिमेंटस ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		32	राधाबाई खेडेकर विद्यालय, खंडाळा रोड चिखली, ता. चिखली	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		33	संभाजी राजे माध्यमिक विद्यालय, इसरूळ ता. चिखली	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		34	शहाजी राजे विद्यालय उंद्री ता. चिखली	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		35	स्व.पंजबराव जाधव आदिवासी विद्यालय, टिटवी, ता. लोणार	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		36	तक्षशिला माध्यमिक विद्यालय, ता. चिखली जि.बुलढाणा	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण बुलढाणा		36			41	2460		82	2460
अकोला	मुर्तीजापूर	1	प्रा.मधुकरराव मेढे तांत्रिक विद्यालय, बोर्टा	एलिमेंटस ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण अकोला		1			1	60		2	60
वाशिम			निरंक						
एकूण वाशिम		0			0	0		0	0
यवतमाळ	बाभुळगांव	1	बुध्द संदेश शिक्षण प्रचार संस्था, तथागत विद्यालय, कोठंबा	मूलभूत तंत्रज्ञानाची ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	मारेगाव	2	स्व.लक्ष्मीबाई मोदे विद्यालय, जळका	मूलभूत तंत्रज्ञानाची ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
	मारेगाव	3	कै.बालाजीपंत चोपणे माध्यमिक विद्यालय, बोटोणी	मूलभूत तंत्रज्ञानाची ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मारगाव	4	नेताजी सुभाषचंद्र बोस माध्यमिक विद्यालय, म्हे.सदोङ्का	मूलभूत तंत्रज्ञानाची ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60	
	5	शिवशक्ती कन्या विद्यालय, कळंब	मूलभूत तंत्रज्ञानाची ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60	
एकूण यवतमाळ	5				5	300		10	300
एकूण अमरावती	48				55	3300		110	3300
आँरंगाबाद	आँरंगाबाद	1	ज्ञानेश विद्या मंदिर, एन-2, सिडको, आँरंगाबाद	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
खुलताबाद	खुलताबाद	2	जय भवानी हायस्कूल, जय विश्वभारती कॉलनी, गारखेडा,	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
कळड	कळड	3	राज शिवाजी विद्यालय, पी-119, एम.आय.डी.सी. एरिया, बजाजनगर, आँरंगाबाद	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	3	180	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120
पैठण		4	वसंतराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, बळीराम पाटील विद्यालय, सिडको, एन-9, आँरंगाबाद	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
				एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
		5	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षण संस्थेचे धर्माविर संभाजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिडको, एन-5, (दक्षिण),	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण आँरंगाबाद	5				9	540		18	540
जालना		0	निरंक						
एकूण जालना जिल्हा	0				0	0		0	0
परभणी		0	निरंक						
एकूण परभणी	0				0	0		0	0
हिंगोली		0	निरंक						
एकूण हिंगोली जिल्हा	0				0	0		0	0

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बॅच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बीड		1	श्रीमती गोदावरीबाई कुंकुलोळ योगेश्वरी कन्या विद्यालय, अंबाजोगाई	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
		2	योगेश्वरी अंबाजोगाई जि. बीड	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	60
		3	वसंतराव नाईक विद्यालय वरवटी	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	1	60	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	2	
		4	शाहू महाराज बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था व शिक्षण प्रसारक मंडळ आष्टी संचालित श्रीगणेश टेक्निकल हायस्कूल आष्टी ता.आष्टी जि. बीड	एलिमेंटस ऑफ मेकेनिकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेकेनिकल टेक्नॉलॉजी	2	60
एकूण बोड जिल्हा		4			4	240		8	180
नांदेड	किनवट	1	महात्मा ज्योतिबा फुले हायस्कूल किनवट	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	2	120	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	4	120
	बिलोली	2	श्री श्रत्रपती शिवाजी हायस्कूल सगरोळी ता.बिलोली	मुलभूत तंत्रज्ञानाची तॉड ओळख	2	120	बेसिक टेक्नॉलॉजी (Basic Technology) एम.एस.एफ.सी. (Multi Skill Foundation Course)	4	120
	किनवट	3	उत्तमराव राठोड आदर्श तांत्रीक विद्यालय,किनवट	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
	कंधार	4	श्री बसवेश्वर तांत्रिक विद्यालय,फुलवळ,तां. कंधार	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60
लोहा	5	जनता माध्यमिक विद्यालय, दगडसांगवी, ता.लोहा	एलिमेंटस ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी		60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60	

जिल्हा	तालुका	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	सध्या सुरु असलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बैच)	प्रवेश-क्षमता	नवीन सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम	तुकडया (बैच)	प्रवेश-क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कंधार	6	सदगुरु आदिवासी आश्रमशाळा बहाधरपुरा , ता.कंधार	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
	7	गोदावरी शिक्षण संस्था तळेगाव ता.उमरी	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
	8	कै.विठाई माध्यमिक विद्यालय,तरोडा,बु.नांदे ड	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	1	60	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	2	60	
एकूण नांदेड जिल्हा	8				9	600		20	600
उस्मानाबाद	0	निरंक			0	0		0	0
एकूण उस्मानाबाद जिल्हा	0				0	0		0	0
लातूर	1	श्री. केशवराज विद्यालय, लातूर	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	4	120	
	2	श्री देशीकेंद्र विद्यालय, लातूर	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	2	120	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	4	120	
	3	महात्मा फुले विद्यालय, लातूर	एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रीकल अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी	2	120	इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी	4	120	
	4	रुक्म्या बेगम विद्यालय, लातूर	एलिमेंट्स ऑफ मेक्निकल इंजिनिअरिंग	1	60	मेक्निकल टेक्नॉलॉजी	2	60	

